



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 12—जनवरी 18, 2008 (पौष 22, 1929)
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 12—JANUARY 18, 2008 (PAUSA 22, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	13	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	27	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	81
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	23	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	13
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	17
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	7
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों की दर्शाने वाला सम्पूर्णक	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	13	and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.....	27	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	23	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	81
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	13
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	17
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	7
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
 (उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 20 दिसम्बर 2007

संख्या एफ. 9-11/99-यू-3

जबकि “केरल कलामंडलम, त्रिस्सूर, केरल को इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 मार्च 2006 के जरिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत कुछ शर्तों के अधधीन समविश्वविद्यालय घोषित किया गया था जिनमें “समविश्वविद्यालय” के दर्जे के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से उसके कर्मचारियों को यूजीसी के वेतनमान प्रदान किए जाने” संबंधी शर्त शामिल थी;

2. और जबकि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से उपर्युक्त पैरा-1 में उल्लिखित शर्त के खंड को समाप्त करने का अनुरोध किया है और पात्र कर्मचारियों को वर्तमान शैक्षिक सत्र की शुरुआत से अर्थात् संस्था के ‘समविश्वविद्यालय’ के रूप में कार्य शुरू करने की तारीख से यूजीसी के वेतनमान प्रदान करने की तत्परता व्यक्त की है;

3. और जबकि केरल राज्य सरकार के उक्त अनुरोध को जाँच के लिए यूजीसी को अग्रेषित किया गया था। अनुरोध पर विचार करने के बाद आयोग ने विचाराधीन धारा के खंड को समाप्त करने और उनके कर्मचारियों को ‘समविश्वविद्यालय’ के दर्जे की अधिसूचना की तारीख से यूजीसी के वेतनमान प्रदान करने हेतु केरल कलामंडलम को अनुमति दिए जाने की शर्त का खंड जोड़ने पर अपनी ‘अनापत्ति’ की सूचना दे दी है;

4. अतएव अब इस मामले में केरल राज्य सरकार के अनुरोध तथा यूजीसी की सलाह पर विचार करते हुए और यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.3.2006 की उपर्युक्त पैरा-1 में उल्लिखित शर्त के खंड को एतद्द्वारा समाप्त करती है और उसके स्थान पर शर्त का संशोधित खंड जोड़ती है जो इस प्रकार होगा “अधिसूचना की तारीख से अपने कर्मचारियों को यूजीसी के वेतनमान प्रदान करना।”

5. मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.3.2006 में की गई घोषणा की अन्य नियामक शर्तें यथावत् रहेंगी।

रवि माथुर
 संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-1, the 20th December 2007

No. F.9-11/99-U.3

Whereas "Kerala Kalamandalam, Thrissur, Kerala was declared deemed to be a university under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 vide this Ministry's notification of even number dated the 14th March, 2006 subject to certain conditions including the one that pertained to **'granting of the UGC's pay scales to its employees with effect from the date of submission of application for 'deemed to be university' status'**;

2. And whereas, the State Government requested the Central Government to do away with the clause of condition referred to in para 1 above and expressed its readiness to pay the UGC's pay scale to the eligible employees instead from the beginning of the current academic year, i.e. from the effective date of functioning of the 'deemed-to-be-university' institution;

3. And whereas, the said request of the State Government of Kerala was forwarded to the UGC for examination. Upon consideration of the request, the Commission have now conveyed their 'No Objection' to the deletion of the clause of condition in question and to replace it with a clause of condition to allow the Kerala Kalamandalam to grant UGC's pay scale to its employees with effect from the date of notification of 'deemed to be university' status;

4. Now, therefore, the Central Government, on considering the request of the State Government of Kerala and the advice of the UGC in the matter, and in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, do hereby delete the clause of condition of this Ministry's Notification of even number dated the 14.03.2006 referred to in para 1 above and substitute the same with a modified clause of condition which shall read as **"granting of the UGC's pay scales to its employees with effect from the date of this Notification"**.

5. The other conditions that govern the declaration made in the Ministry's Notification of even number dated the 14.03.2006 shall remain unaltered.

RAVIMATHUR
Jt. Secy.